



प्रधानाचार्यकेकार्यालय/OFFICE OF THE PRINCIPAL
अंडमानकॉलेज/ANDAMAN COLLEGE
अंडमानऔरनिकोबारप्रशासन/ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
पोर्टब्लेयर/PORT BLAIR

College No: 1027

E-mail Id: andamancollege@gmail.com

File No: 2-12/ESH / ANCOL/General/ 2018/

Dated 16/08/2018

NEWS ITEM

अंडमान कालेज के संगीत विभाग की ओर से आज दिनांक 16/08/18 को मुंबई की सुप्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विदूषीगायिका श्रीमती सुनीता टिकारे जी के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। महाविद्यालय के प्राचार्य डा. एस. जयकुमार ने उपस्थिति का स्वागत किया और अंडमान कालेज का परिचय देते हुए संगीत विभाग के कार्यकलापों का विवरण दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पांडिचेरी विश्वविद्यालय के अंतर्गत केवल इसी महाविद्यालय में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाया जाता है। संगीत विभाग की प्रभारी डा. एन. लक्ष्मी ने श्रीमती सुनीता जी का परिचय देते हुए कहा कि ऐसी सुप्रसिद्ध विदूषी गायिका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात हैं, उन्हें सुनने का जो सुनहरा अवसर मिला है, वह न केवल छात्रों के लिए बल्कि सभी शिक्षकों के लिए भी गौरव का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के संगीत विभाग में हुआ है। श्रीमती सुनीता टिकारे जी ने अपने संगीत की धुन से पूरी सभा को भावविभोर कर दिया। उन्होंने शास्त्रीय संगीत के साथ-साथ तराना, भजन, गजल जैसे विविध रसों से श्रोताओं का रसास्वादन किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डा. एस. जयकुमार ने शाल तथा स्मृति चिह्न भेंट कर संगीत विदूषी सुनीता जी का सम्मान किया। महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भी क्रमशः गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में डा. एन. लक्ष्मी ने धन्यवाद ज्ञापित किया, संगीत विभाग की तृतीय वर्ष की छात्रा नंदना नंदी ने कार्यक्रम का संचालन किया।

NEWS ITEM

A Hindustani Classical Concert was organized on 16/08/18 by the Music Department of Andaman College (Hindustani Vocal) to Honor the world famous Hindustani Vocal Musician Mrs. Sunita Tikare who arrived from Mumbai to these Islands. The program began with the precious lighting of lamp and welcome song by the students of Music Department. Dr. S. Jayakumar, Principal, ANCOL welcome the gathering and gave a brief introduction of the College. He also conveyed that this is the only college affiliated to Pondicherry University where Hindustani Vocal has been taught. The In-Charge of Music Department Dr. N. Lakshmi, gave brief introduction of Mrs. Sunita Tikare. She also expressed her gratitude for accepting the invitation even after her busy

schedule. Mrs. Sunita Tikare enraptured the audience by her performance. She sang Classical, Semi Classical and Bhajan along with Tarana. The students of Music Department also impressed the gathering with their beautiful voice through their singing. The program came to an end with vote of Thanks proposed by Dr. N. Lakshmi and Miss. Nandana Nandi, BPA III Year student was the Master of Ceremony.



Sd/-

Dr. S. Jayakumar
Principal
Andaman College
Port Blair